

फॉर्म L-1-A-RA

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि 01.01.2001

30.09.2024 को समाप्त तिमाही अवधि के लिए राजस्व खाता
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

(राशि रुपये करोड़ में)																			
विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या	जुड़ा हुआ व्यवसाय					गैर-लिंक्ड व्यवसाय										सीरएसी	कुल योग	
		जीवन	पेंशन	स्वास्थ्य	परिवर्तनीय	कुल	सहभागी					गैर - सहभागी							
							जीवन	वार्षिकी	पेंशन	स्वास्थ्य	परिवर्तनीय	कुल	जीवन	वार्षिकी	पेंशन	स्वास्थ्य	परिवर्तनीय	कुल	
अर्जित प्रीमियम - शुद्ध																			
(a) प्रीमियम	एल 4	3,472.43	393.09	12.04	-	3,877.56	66,864.77	0.35	72.63	-	-	66,937.75	18,924.39	4,612.40	25,620.49	73.87	0.97	49,232.12	0.05
(b) करवाये गये पुनर्बीमा		(0.03)	-	(2.02)	-	(2.05)	(21.29)	-	(0.03)	-	-	(21.32)	(103.30)	-	-	(19.82)	-	(123.12)	-
(c) पुनर्बीमा स्वीकृत		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश से आय:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल		233.06	77.87	22.62	-	333.55	53,588.40	93.22	772.30	-	-	54,453.92	9,111.92	2,875.75	13,877.03	15.97	2.10	25,882.77	4.17
(b) निवेश के विक्रय / मोचन पर लाभ		236.25	307.89	51.63	-	595.77	18,320.89	0.12	-	-	-	18,321.01	5,494.23	3.13	2,599.99	-	0.01	8,097.36	-
(c) निवेश के विक्रय / मोचन पर नुकसान		(0.07)	(0.01)	(0.03)	-	(0.11)	(111.37)	(0.71)	(0.39)	-	-	(112.47)	(27.07)	-	(71.01)	-	-	(98.08)	(0.17)
(d) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/स्थानांतरण*		1,540.04	229.81	30.97	-	1,800.82	(33.05)	-	-	-	-	(33.05)	-	-	-	-	-	-	-
(e) प्रीमियम का परिशोधन/ निवेश पर छूट		-	-	-	-	-	(241.70)	(1.95)	(3.96)	-	-	(247.61)	(10.09)	(15.34)	-	(0.02)	-	(25.45)	-
अन्य आय		(0.23)	-	-	-	(0.23)	39.48	-	-	-	-	39.48	72.29	-	33.24	-	(0.02)	105.51	-
शेयरधारकों के खाते से अंशदान:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय		-	-	-	-	-	597.71	-	4.81	-	-	602.52	-	-	-	-	-	-	602.52
(b) अन्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (A)		5,481.45	1,008.65	115.21	-	6,605.31	1,39,003.84	91.03	845.36	-	-	1,39,940.23	33,462.37	7,475.94	42,059.74	70.00	3.06	83,071.11	4.05
कमीशन	एल 5	110.71	11.63	0.60	-	122.94	5,855.40	-	1.45	-	-	5,856.85	415.10	140.74	0.02	5.89	0.02	561.77	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	एल 6	178.46	29.24	2.76	-	210.46	8,814.25	1.44	13.46	-	-	8,829.15	559.55	91.64	43.76	15.61	0.03	710.59	0.02
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	0.05	-	-	0.05	(348.52)	-	-	-	-	(348.52)	(0.14)	(1.02)	-	-	-	(1.16)	-
अशोध्य ऋण बढ़े खाते में डाले गए		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान		20.55	-	1.77	-	22.32	1.66	-	-	-	-	1.66	1,017.69	4.45	51.98	1.84	-	1,075.96	2.38
प्रावधान (कराधान के अलावा) :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) निवेश(शुद्ध) के मूल्य में कमी के लिए		-	-	-	-	-	(6.38)	-	-	-	-	(6.38)	0.31	-	-	-	-	0.31	-
(b) अन्य के लिए		-	-	-	-	-	(538.80)	-	-	-	-	(538.80)	(0.03)	(0.02)	2.38	-	-	2.33	-
युलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर		44.63	7.74	3.57	-	55.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (B)		354.35	48.66	8.70	-	411.71	13,777.61	1.44	14.91	-	-	13,793.96	1,992.48	235.79	98.14	23.34	0.05	2,349.80	2.40
भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	एल 7	533.25	337.67	29.99	-	900.91	52,601.78	87.22	508.93	-	-	53,197.93	16,440.35	2,484.79	23,670.16	6.98	1.38	42,603.66	0.07
भुगतान किया गया अंतरिम बोनस		-	-	-	-	-	859.66	-	0.10	-	-	859.76	-	-	-	-	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(a) सकल **		3.24	(2.44)	(1.49)	-	(0.69)	71,824.98	(47.74)	300.39	-	-	72,077.63	8,362.74	4,724.84	17,934.43	26.96	0.63	31,049.60	(2.85)
(b) पुनर्बीमा में दी गई राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) लिंक्ड पॉलिसियों के लिए निधि रिजर्व		4,450.51	513.94	65.90	-	5,030.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,030.35
(e) बंद नीतियों के लिए निधि		77.45	14.77	-	-	92.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.22
(f) भविष्य के विनियोगों के लिए शेष निधि-जुड़ा हुआ व्यवसाय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (C)		5,064.45	863.94	94.40	-	6,022.79	1,25,286.42	39.48	809.42	-	-	1,26,135.32	24,803.09	7,209.63	41,604.59	33.94	2.01	73,653.26	(2.78)
अधिशेष/(घाटा) (D) =(A)-(B)-(C)		62.65	96.05	12.11	-	170.81	(60.19)	50.11	21.03	-	-	10.95	6,666.80	30.52	357.01	12.72	1.00	7,068.05	4.43
शेयरधारकों के खाते से अंतरित राशि (गैर-तकनीकी खाता)		78.47	6.76	-	-	85.23	-	-	-	-	-	-	322.55	-	-	-	(1.00)	321.55	-
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि		141.12	102.81	12.11	-	256.04	(60.19)	50.11	21.03	-	-	10.95	6,989.35	30.52	357.01	12.72	-	7,389.60	4.43
विनियोग		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण		141.12	102.81	12.11	-	256.04	(0.00)	-	(0.00)	-	-	(0.00)	6,989.35	30.52	357.01	12.72	-	7,389.60	4.43
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भविष्य के विनियोगों के लिए शेष निधि		-	-	-	-	-	(60.19)	50.11	21.03	-	-	10.95	-	-	-	-	-	-	10.95
कुल		141.12	102.81	12.11	-	256.04	(60.19)	50.11	21.03	-	-	10.95	6,989.35	30.52	357.01	12.72	-	7,389.60	4.43

*प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त किये गए वास्तविक लाभ का प्रतिनिधित्व
** बोनस के आवंटन के बाद गणितीय भंडार का प्रतिनिधित्व करता है

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।